

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 471]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021 — भाद्रपद 5, शक 1943

---

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्रमांक 8956/डी. 94/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 14 सन् 2021)

### छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा.  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.  
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 14 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	भारती विश्वविद्यालय	हॉलिस्टिक फाउंडेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी पंजीयन क्रमांक 13053, दिनांक 25-08-2007	ग्राम-चंदखुरी, पोस्ट-तहसील एवं जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन-491001	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>कला / मानविकी / समाजिक विज्ञान संकाय</li> <li>विज्ञान संकाय</li> <li>शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय</li> <li>इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी / डिजाइन संकाय</li> <li>स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संकाय</li> <li>व्यापार प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंधन / वित्त संकाय</li> <li>पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संकाय</li> <li>विधि संकाय</li> <li>पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया संकाय</li> <li>होटल प्रबंधन में पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम।</li> </ul>

टीप :- धारा 11 की उप-धारा (1) में निर्धारित जमा राशि, रुपये 5.00 करोड़ के स्थान पर इस प्रकरण में रुपये 50.00 लाख होगी.

अटल नगर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्रमांक 8956/डी. 94/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-08-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 14 of 2021)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION)  
(AMENDMENT) ACT, 2021

An Act to futher amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Opreation) (Amendment) Act, 2021. **Short title, extent and commencement.**
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Esatblishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 14 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :- **Amendment of Schedule.**

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"15.	Bharti Vishwavidyalaya	Holistic Foundation, Durg Chhattisgarh	Society Registered under Chhattisgarh societies registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration number 13053, dated 25-08-2007	Village-Chandkhuri, Post-Tahsil and District-Durg, Chhattisgarh Pin-491001.	Chhattisgarh	Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their intergrated courses, M.Phil., Ph.D. and other research level only regular courses in - <ul style="list-style-type: none"> <li>Arts/Humanities/Social Science Faculty</li> <li>Science Faculty</li> <li>Education/Teacher Training Faculty.</li> <li>Engineering/Technology/design Faculty</li> <li>Health and Allied Science Faculty</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Administration/Commerce/Management/Finance Faculty</li> <li>• Library and Information Science Faculty</li> <li>• Law Faculty</li> <li>• Journalist/Mass Communication/Media Faculty</li> <li>• Hotel Management."</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--

Note :- the deposit amount prescribed in sub section (1) of Section 11 in this matter shall be Rs. 50.00 Lakhs in place of Rs. 5.00 Crores.